

प्रेस नोट दिनांक 27.08.2021

इटावा पुलिस द्वारा दिनांक 15.08.2021 को थाना जसवंतनगर क्षेत्रान्तर्गत आधार ढाबा पर खाना खाने गये युवक से की गई 12000/- एवं मोबाइल लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए लूट के 1500 रूपये, मोबाइल फोन, लूट में प्रयुक्त मोटरसाइकिल एवं 03 अवैध असलहा सहित 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।

जनपद में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा डॉ० बृजेश कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा के कुशल मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी जसवंतनगर के नेतृत्व में थाना जसवंतनगर पुलिस द्वारा दिनांक 15.08.2021 को थाना क्षेत्रान्तर्गत आधार ढाबा पर खाना खाने गये युवक से की गई रूपयों एवं मोबाइल लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए लूट के 1500 रूपये, मोबाइल फोन, लूट में प्रयुक्त मोटरसाइकिल एवं 03 अवैध असलहा सहित 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 16.08.2021 को वादी शिवप्रकाश पुत्र रामनारायण निवासी मो० सिद्धार्थपुरी कस्बा व थाना जसवंतनगर द्वारा दिनांक 15.08.2021 की रात्रि को कचौरा वाईपास स्थित आधार ढाबा के पास 03 अज्ञात बदमाशों द्वारा उसके 12000/- व मोबाइल फोन लूट लेने के संबंध में तहरीर दी गई थी । तहरीर के आधार पर थाना जसवंतनगर पुलिस द्वारा तत्काल मु०अ०सं० 344/21 धारा 392 भद्रावि बनाम 03 अज्ञात व्यक्ति अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण-

उक्त लूट की घटना को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा प्रभारी निरीक्षक थाना जसवंतनगर को घटना के अनावरण एवं अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था । इसी क्रम में थाना जसवंतनगर पुलिस द्वारा दिनांक 26/27.08.2021 की रात्रि को लुधपुरा तिराहे पर संदिग्ध व्यक्ति/ वाहन चैकिंग की जा रही थी । चैकिंग के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि दिनांक 15.08.2021 को थाना क्षेत्रान्तर्गत कचौरा वाईपास स्थित आधार ढाबा से एक व्यक्ति से रूपये व मोबाइल की लूट करने वाले बदमाश अपाचे मोटरसाइकिल से बलरई की तरफ से कचौरा वाईपास होते हुए जसवंतनगर की ओर आ रहे हैं जिनके पास असलहा भी हैं ।

सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल कचौरा वाईपास नहर पुल पर पहुंचकर सघनता से वाहन चैकिंग की जाने लगी तभी बलरई की तरफ से एक अपाचे मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दी जिस पर 03 लोग सवार थे जोकि पुलिस टीम को चैकिंग करते हुए देखकर मोटसाइकिल को पीछे की ओर मोड़कर भागने का प्रयास करने लगे । संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस टीम द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करते हुए उनका पीछा कर घेरकर मोटरसाइकिल पर सवार तीनों व्यक्तियों को पकड़ लिया गया ।

***पुलिस पूछताछ-** पुलिस टीम द्वारा पकड़े गये तीनों व्यक्तियों की तलाशी लेने पर उनके कब्जे से असलहा, मोबाइल फोन एवं नकद रूपये बरामद किये गये । पुलिस टीम द्वारा असलहा एवं मोटरसाइकिल के प्रपत्र मांगने पर वह लोग प्रपत्र दिखाने में असमर्थ रहे । पुलिस टीम द्वारा पकड़े गये तीनों व्यक्तियों से कड़ाई से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि हम लोग क्षेत्र में असलहों के बल पर लूटपाट करते हैं तथा दिनांक 15.08.2021 को कचौरा वाईपास स्थित आधार ढाबा के पास से एक व्यक्ति से हम लोगों ने 12000 रूपये नकद व मोबाइल फोन की लूट की थी हमारे पास जो 1500 रूपये एवं मोबाइल फोन है यह उसी लूट से संबंधित है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों से हुई उक्त असलहा बरामदगी के संबंध में थाना जसवंतनगर पर मु0अ0सं0 366/21, 367/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट एवं मु0अ0सं0 368/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है ।

***गिरफ्तार अभियुक्त-**

1. सत्यम यादव पुत्र स्व0 नरेश कुमार नि0 अहीरटोला कस्बा व थाना जसवंतनगर जनपद इटावा ।
2. सवित यादव उर्फ सप्पा पुत्र ब्रह्मानंद यादव नि0 अहीरटोला कस्बा व थाना जसवंतनगर जनपद इटावा ।
3. विवेक गुप्ता पुत्र मनोज गुप्ता नि0 अहीरटोला कस्बा व थाना जसवंतनगर जनपद इटावा ।

***बरामदगी-**

1. 1500 रूपये नगद (लूटे हुए)ज
2. 01 मोबाइल फोन (लूटा हुआ)
3. 01 मोटरसाइकिल अपाचे नं0 यूपी 75 वाई 0774 (लूट की घटना में प्रयुक्त)
4. 01 अवैध चाकू
5. 02 अवैध तमंचा 315 बोर व 04 जिंदा कारतूस ।

***पुलिस टीम-** उ0नि0 श्री दिनेश कुमार कार्यवाहक प्रभारी थाना जसवंतनगर, उ0नि0 नितेन्द्र कुमार वशिष्ठ, उ0नि0 दर्शन सिंह, का0 नितिन चौधरी, का0 आकाश, का0 आशीष कुमार, का0 चा0 विवेक कुमार ।

सोशल मीडिया सेल

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

इटावा